

**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE
पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 Of The Patents Rules)

क्रमांक : 044133970
SL No :




पेटेंट सं. / Patent No. : 377420
आवेदन सं. / Application No. : 202041055429
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 21/12/2020
पेटेंटी / Patentee : 1.DR. MURALI BADANTHADKA 2.PRATHIBHA G.

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित DIET COMPOSITION TO PRODUCE MALNOURISHED ANIMAL MODEL नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 21st day of December 2020 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled DIET COMPOSITION TO PRODUCE MALNOURISHED ANIMAL MODEL as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 21st day of December 2020 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



अनुदान की तारीख : 21/09/2021
Date of Grant :


पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 21st day of December 2022 को और उसके पर्याप्त प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 21st day of December 2022 and on the same day in every year thereafter.

(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION

(19) INDIA

(22) Date of filing of Application :21/12/2020

(21) Application No.202041055429 A

(43) Publication Date : 01/01/2021

(54) Title of the invention : DIET COMPOSITION TO PRODUCE MALNOURISHED ANIMAL MODEL

(51) International classification	:A01K 67/027	(71)Name of Applicant :
(31) Priority Document No	:NA	1)DR. MURALI BADANTHADKA
(32) Priority Date	:NA	Address of Applicant :Professor in Pharmacy & Dy Director
(33) Name of priority country	:NA	NUCARE, Nitte University Centre for Animal Research and
(86) International Application No	:NA	Experimentation (NUCARE), NGSMIPS, Paneer, Deralakatte,
Filing Date	:NA	Mangalore Karnataka India
(87) International Publication No	:NA	2)PRATHIBHA G.
(61) Patent of Addition to Application Number	:NA	(72)Name of Inventor :
Filing Date	:NA	1)DR. MURALI BADANTHADKA
(62) Divisional to Application Number	:NA	2)MADHURA R.J.
Filing Date	:NA	

(57) Abstract :

DIET COMPOSITION TO PRODUCE MALNOURISHED ANIMAL MODEL Abstract: The present invention relates to the development of proper diet combination/composition for inducing the malnutrition in animals. It particularly relates to the development of diet combination/composition for malnourished animal model that mimics human population. It more specifically relates to the low protein diet combination for malnourished animal model that mimics human population having standard pellet or normal diet, wheat bran, corn oil, starch, sucrose, vitamin and mineral mixture. The invention also pertains to the development of suitable process for preparation of diet combination/composition for malnourished animal model development that mimics human population. The present invention diet composition/combination is helpful for researchers to successfully complete their research on the malnourished animal model development that mimics human population.

No. of Pages : 24 No. of Claims : 10